

<p>संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अर्हता धारित करता हो। नोट:- समकक्ष अर्हता: वास्तुविद अधिनियम-1972 की धारा-14 की अनुसूची के अनुसार विहित है।</p> <p>(ब) अधिमानी अर्हताएँ:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p>नोट:- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्रियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में एच0एच0, ओ0एल0, बी0एल0, डी0डब्ल्यू0, ए0ए0वी उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे।</p>				<p>• उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990</p> <p>• उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008</p>				<p>• उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990</p> <p>• उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008</p>																																																																																											
<p>उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग</p> <p>पद का नाम: प्रोफेसर (आचार्य), रिक्रियों की संख्या-19</p> <p>विशिष्टतावार रिक्रियों की संख्या निम्नवत् है:-</p>				<p>प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0</p> <p>पद का नाम- निरीक्षक-राजकीय कार्यालय, कुल रिक्रियों की संख्या-02</p> <p>आरक्षणवार रिक्रियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण- अनुसूचित जाति-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं। विभाग संख्या- सेवा-10/01, पद का स्वरूप- समूह- 'ख', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रु0 44900-142400/-), ग्रेड पे- 4600/-, आयु सीमा- न्यूनतम 35 वर्ष, उच्चतम 42 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप में पहले से ही कार्य कर रहा हो उसकी आयु, उस दिनांक से जब से वह ऐसे स्थानापन्न रूप में निरन्तर कार्य कर रहा हो, 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (दो) ऐसे स्थायी सरकारी सेवकों में से जो राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में लिपिकीय पद पर हों और जिन्होंने ऐसे पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, परन्तु ऐसे व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थानापन्न या अस्थायी रूप से निरीक्षक के पद पर रह चुके हो या पद पर हों, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। (ब) अधिमानी अर्हताएँ:- 1. ओ0 एण्ड एम0 में प्रशिक्षण या लोक प्रशासन (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) में डिप्लोमा या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि या कार्यालय का निरीक्षण करने का अनुभव। 2. 10 वर्ष की अपेक्षित सेवा में से कम से कम तीन वर्ष की पर्यवेक्षकीय हैसियत में सेवा। (स) अधिमानी अर्हताएँ: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p>																																																																																															
<p>पद की संगत सेवा नियमावली</p> <p>• उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992</p>				<p>उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग</p> <p>पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिक्रियों की संख्या- 36</p> <p>विशिष्टतावार रिक्रियों की संख्या निम्नवत् है:-</p>				<p>उ0प्र0 आयुष (होम्योपैथी) विभाग</p> <p>पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिक्रियों की संख्या- 32</p> <p>विशिष्टतावार रिक्रियों की संख्या निम्नवत् है:-</p>																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0सं0</th> <th>रीडर (स्पेशियलिष्ट)</th> <th>आरक्षणवार पदों की संख्या</th> <th>विभाग संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>कायचिकित्सा</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/02</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>कौमारमृत्य</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/03</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>रचना शारीर</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/04</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>क्रिया शारीर</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/05</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>द्रव्यगुण</td> <td>कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/06</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/07</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>रोग निदान</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/08</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>स्वास्थ्यवृत्त</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/09</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/10</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>शल्य तंत्र</td> <td>कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/11</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>शालाक्य तंत्र</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/12</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>एस-9/13</td> </tr> </tbody> </table>				क्र0सं0	रीडर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या	1.	कायचिकित्सा	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/02	2.	कौमारमृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/03	3.	रचना शारीर	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/04	4.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/05	5.	द्रव्यगुण	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/06	6.	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/07	7.	रोग निदान	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/08	8.	स्वास्थ्यवृत्त	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/09	9.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/10	10.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/11	11.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/12	12.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/13	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0सं0</th> <th>लेक्चरर (स्पेशियलिष्ट)</th> <th>आरक्षणवार पदों की संख्या</th> <th>विभाग संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>अर्गनन ऑफ मेडिसिन</td> <td>कुल पद 09, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-06, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।</td> <td>सेवा-11/01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>रेपरटरी</td> <td>कुल पद 06, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-04, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।</td> <td>सेवा-11/02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>पैथालॉजी (विकृत विज्ञान)</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (विधि शास्त्र एवं विष विज्ञान)</td> <td>कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>फिजियोलॉजी (शरीर क्रिया विज्ञान)</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/05</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>एनाटमी (शरीर रचना विज्ञान)</td> <td>कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/06</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>सर्जरी (शल्य क्रिया विज्ञान)</td> <td>कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/07</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>गायनाकॉलॉजी एण्ड आब्स्ट्रेटिक्स (स्त्री एवं प्रसूति रोग)</td> <td>कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/08</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>कम्प्यूटरी मेडिसिन (सामुदायिक औषध)</td> <td>कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-03, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।</td> <td>सेवा-11/09</td> </tr> </tbody> </table>				क्र0सं0	लेक्चरर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या	1	अर्गनन ऑफ मेडिसिन	कुल पद 09, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-06, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।	सेवा-11/01	2	रेपरटरी	कुल पद 06, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-04, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।	सेवा-11/02	3	पैथालॉजी (विकृत विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/03	4	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (विधि शास्त्र एवं विष विज्ञान)	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/04	5	फिजियोलॉजी (शरीर क्रिया विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/05	6	एनाटमी (शरीर रचना विज्ञान)	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/06	7	सर्जरी (शल्य क्रिया विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/07	8	गायनाकॉलॉजी एण्ड आब्स्ट्रेटिक्स (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/08	9	कम्प्यूटरी मेडिसिन (सामुदायिक औषध)	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-03, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/09
क्र0सं0	रीडर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या																																																																																																
1.	कायचिकित्सा	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/02																																																																																																
2.	कौमारमृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/03																																																																																																
3.	रचना शारीर	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/04																																																																																																
4.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/05																																																																																																
5.	द्रव्यगुण	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/06																																																																																																
6.	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/07																																																																																																
7.	रोग निदान	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/08																																																																																																
8.	स्वास्थ्यवृत्त	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/09																																																																																																
9.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/10																																																																																																
10.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/11																																																																																																
11.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/12																																																																																																
12.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिक्रि नहीं।	एस-9/13																																																																																																
क्र0सं0	लेक्चरर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या																																																																																																
1	अर्गनन ऑफ मेडिसिन	कुल पद 09, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-06, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।	सेवा-11/01																																																																																																
2	रेपरटरी	कुल पद 06, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-04, अनु0जाति-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।	सेवा-11/02																																																																																																
3	पैथालॉजी (विकृत विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/03																																																																																																
4	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (विधि शास्त्र एवं विष विज्ञान)	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/04																																																																																																
5	फिजियोलॉजी (शरीर क्रिया विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/05																																																																																																
6	एनाटमी (शरीर रचना विज्ञान)	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/06																																																																																																
7	सर्जरी (शल्य क्रिया विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/07																																																																																																
8	गायनाकॉलॉजी एण्ड आब्स्ट्रेटिक्स (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/08																																																																																																
9	कम्प्यूटरी मेडिसिन (सामुदायिक औषध)	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-03, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्रि नहीं।	सेवा-11/09																																																																																																
<p>पद का स्वरूप- समूह- 'क', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67700-208700), आयु सीमा- न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 5 वर्ष)। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।</p> <p>नोट:- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।</p> <p>नोट:- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्रियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल एल0बी0, ओ0एल0, एल0सी0, डी डब्ल्यू0, ए0ए0वी0 उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे।</p>				<p>उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग</p> <p>पद का नाम: प्राध्यापक संस्कृत, विभाग संख्या- एस-9/21, कुल रिक्रियों की संख्या- 05, आरक्षणवार रिक्रियों की संख्या- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01, पद का स्वरूप- समूह- 'ख', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56100-177500), आयु सीमा- न्यूनतम 25 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- 1. संस्कृत में एम0ए0 (प्रथम श्रेणी में) या व्याकरण या संस्कृत साहित्य में आचार्य (प्रथम श्रेणी में)। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। 3. हिन्दी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:- 1. संस्कृत में पी0एच0डी0। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।</p> <p>नोट:- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।</p> <p>नोट:- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्रियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल एल0बी0, ओ0एल0, एल0सी0, डी डब्ल्यू0, ए0ए0वी0 उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे।</p>				<p>उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग</p> <p>पद का नाम: प्राध्यापक संस्कृत, विभाग संख्या- एस-9/21, कुल रिक्रियों की संख्या- 05, आरक्षणवार रिक्रियों की संख्या- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-02, ओ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01, पद का स्वरूप- समूह- 'ख', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56100-177500), आयु सीमा- न्यूनतम 25 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- 1. संस्कृत में एम0ए0 (प्रथम श्रेणी में) या व्याकरण या संस्कृत साहित्य में आचार्य (प्रथम श्रेणी में)। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। 3. हिन्दी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:- 1. संस्कृत में पी0एच0डी0। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।</p> <p>नोट:- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।</p> <p>नोट:- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्रियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल एल0बी0, ओ0एल0, एल0सी0, डी डब्ल्यू0, ए0ए0वी0 उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे।</p>																																																																																											
<p>पद की संगत सेवा नियमावली</p>				<p>पद की संगत सेवा नियमावली</p>				<p>पद की संगत सेवा नियमावली</p>																																																																																											

on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.
[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]
 For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS
 All Notification / Advertisements
- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
 Candidate Registration
 Fee Deposition / Reconciliation
 Submit Application Form
 Modify Submitted Application
 Candidate Dashboard (OTR Based)
- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION
 Double Verification mode
 View Application Status
 Download Admit Card
 Print Duplicate Registration Slip
 Print Detailed Application Form
 List of Applications Having ANY Objections
 View Answer Key
LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1
उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद नाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास घनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद नाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय का नाम
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण पत्र संख्या दिनांक
वित्तीय वर्ष के लिए मान्य
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/करवा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।
 आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ
 हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)
 पूरा नाम
 पदनाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र स्वयं घोषण पत्र
 मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/करवा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य, ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।
 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।
अथवा
 कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाम प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

Form-II
Certificate of Disability
 (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
 (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
 Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability
Certificate No. **Date:**
 This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of:
 ● locomotor disability
 ● dwarfism
 ● blindness
 (Please tick as applicable)
 (B) The diagnosis in his/her case is
 (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
 2.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer

(with seal)
Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)
 Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**
 This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/ female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/ Street Post Office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
 In figures.....percent.
 In words.....percent
 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
 3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary, or
 (ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing

<p style="text-align: center;">the Certificate)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> </div> <p>Certificate No. _____ Date: _____</p> <p>This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____.</p> <p>Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>S. N.</th> <th>Disability</th> <th>Affected part of body</th> <th>Diagnosis</th> <th>Permanent physical impairment/ mental disability (in%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Locomotor disability</td><td>@</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Muscular Dystrophy</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>Leprosy cured</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>Cerebral Palsy</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>Acid attack Victim</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>Low Vision</td><td>#</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>Deaf</td><td>£</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td>Hard of Hearing</td><td>£</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td>Speech and Language disability</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td>Intellectual Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td>Specific Learning Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td>Autism Spectrum Disorder</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td>Mental illness</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td>Chronic Neurological Conditions</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td>Multiple sclerosis</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16.</td><td>Parkinson's disease</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17.</td><td>Haemophilia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18.</td><td>Thalassemia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19.</td><td>Sickle Cell disease</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(Please strike out the disabilities which is not applicable)</p> <p>2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.</p> <p>3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY) @ - e.g. Left/right/both arms/legs # - e.g. Single eye/both eyes £ - e.g. Left/Right/both ears</p> <p>4. Signature and seal of the Medical Authority.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;"> <p>Name and Seal of Member</p> </td> <td style="width:33%; text-align: center;"> <p>Name and Seal of Member</p> </td> <td style="width:33%; text-align: center;"> <p>Name and Seal of the Chairperson</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</p> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</p> </td> </tr> </table> <p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।</p> <p>प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____ निवासी ग्राम- _____ नगर- _____ जिला- _____ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) _____ पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) _____ के आश्रित हैं। स्थान: _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक: _____ पूरा नाम _____ पदनाम _____ मुहर _____ जिलाधिकारी (सील)</p> <p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्राारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में</p>	S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)	1.	Locomotor disability	@			2.	Muscular Dystrophy				3.	Leprosy cured				4.	Cerebral Palsy				5.	Acid attack Victim				6.	Low Vision	#			7.	Deaf	£			8.	Hard of Hearing	£			9.	Speech and Language disability				10.	Intellectual Disability				11.	Specific Learning Disability				12.	Autism Spectrum Disorder				13.	Mental illness				14.	Chronic Neurological Conditions				15.	Multiple sclerosis				16.	Parkinson's disease				17.	Haemophilia				18.	Thalassemia				19.	Sickle Cell disease				<p>Name and Seal of Member</p>	<p>Name and Seal of Member</p>	<p>Name and Seal of the Chairperson</p>	<p>Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</p>	<p>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</p>		<p style="text-align: center;">भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ में दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ नाम _____ पद _____ संस्था का नाम _____ मुहर _____</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्राारूप - 2</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ में दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) _____ आयोजित राष्ट्रीय _____ में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र _____ (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ नाम _____ पद _____ संस्था का नाम _____ मुहर _____</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्राारूप - 3</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>विश्वविद्यालय का नाम _____ राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा नाम) _____ विश्वविद्यालय की कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय _____ (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद _____ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ नाम _____ पद _____ संस्था का नाम _____ मुहर _____</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्राारूप - 4</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश _____ राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ में दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ नाम _____ पद _____ संस्था का नाम _____ मुहर _____</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा _____ द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट-2</p> <p>प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत निरीक्षक-राजकीय कार्यालय पद हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र का प्राारूप। अनुभव प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ वर्तमान पदनाम _____ कार्यालय _____ में दिनांक _____ से आज दिनांक _____ तक _____ वर्षों से निरन्तर शासकीय सेवा में मौलिक रूप से कार्यरत हैं। दिनांक _____ से दिनांक _____ तक इनके द्वारा धारित पद एवं सेवा विशुद्ध रूप से राजकीय एवं लिपिकीय है। श्री _____ कार्यालय _____ के मौलिक एवं स्थायी कर्मचारी हैं तथा वर्तमान वेतन मैट्रिक्स लेवल _____ पर कार्यरत हैं। वेतनमान _____ पर कार्यरत हैं। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर। (पदनाम मुहर सहित)</p> <p style="text-align: right;">सचिव</p>	
S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)																																																																																																								
1.	Locomotor disability	@																																																																																																										
2.	Muscular Dystrophy																																																																																																											
3.	Leprosy cured																																																																																																											
4.	Cerebral Palsy																																																																																																											
5.	Acid attack Victim																																																																																																											
6.	Low Vision	#																																																																																																										
7.	Deaf	£																																																																																																										
8.	Hard of Hearing	£																																																																																																										
9.	Speech and Language disability																																																																																																											
10.	Intellectual Disability																																																																																																											
11.	Specific Learning Disability																																																																																																											
12.	Autism Spectrum Disorder																																																																																																											
13.	Mental illness																																																																																																											
14.	Chronic Neurological Conditions																																																																																																											
15.	Multiple sclerosis																																																																																																											
16.	Parkinson's disease																																																																																																											
17.	Haemophilia																																																																																																											
18.	Thalassemia																																																																																																											
19.	Sickle Cell disease																																																																																																											
<p>Name and Seal of Member</p>	<p>Name and Seal of Member</p>	<p>Name and Seal of the Chairperson</p>																																																																																																										
<p>Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</p>	<p>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</p>																																																																																																											